

August 8, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

Scrip Code: **500325** Trading Symbol: **RELIANCE**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper clippings – "Forty-seventh Annual General Meeting (Post-IPO) and Information on E-voting" and other related information

Mumbai 400 051

This is to inform you that the advertisement on the captioned subject has been published today i.e. August 8, 2024 in the newspapers viz. The Times of India (English), The Economic Times (English), Maharashtra Times (Marathi) and Navbharat Times (Hindi).

The newspaper clippings are enclosed for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully, For **Reliance Industries Limited**

Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: as above

Copy to:

The Luxembourg Stock Exchange 35A boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg

Singapore Exchange Limited 4 Shenton Way, #02-01 SGX Centre 2, Singapore 068807

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East).

As rain pounds state, crop loss up from 60,000 ha to 1.5L ha in a week

Kolhapur Dist Worst Hit With Loss Of 31k Ha

Neha Madaan | nev | Kolhapur/Pune: Crops speed and over 15 labh betares have been damaged in the state following the recent heavy rain-fall, with Kolhapur district emerging as worst-affected with expected crop loss of worst 3000 hectares in 582 villages, latest report of the agriculture department showed on Wednesday. A week ago, crop damage



Wednesday over 23,260 hectares, followed A week ago, crop damage by Chandrapur (18,736 hecta-

res), Gadchiroli (II.480 hectares), Budthana (II.183 hectares), Warthan (IO.25) hectares), Warthan (IO.25) hectares), Gassan (G.526 hectares), Parbhand (f.526 hectares) and Nagpur (G.783 hectares), Parbthand (f.781 hectares) and Nagpur (G.783 hectares), Parbthand (f.782 hectares), Parbthand (f.782 hectares), Parbthand (f.782 hectares) and Superment of Io. (G.783 hectares), Part of the Company ned and prepared for cul-

in Kolhapur has started croy damage assessment in areas where floodwater has receded. District agriculture officer Ajay Kulkarni said, "Farmlands were imundated after heavy rainfall for the last blo få days. The work for assessing the croy damage has started on a war foroting. Farmers whose fleids were imundated should submit a copy of Eight A form, Aadhaar card and photocopies of bank passbook to agriculture assistants."

HC overturns 2 DMK ministers' acquittal in graft & assets cases

Sureshkumar.K.
@timesofindia.com

Chennai: Madras high court on Wednesday set aside the discharge and acquittal of the ministers KKSSR Ramachandran disproportionate assets cases, and asked a high court foramecharges assets cases, and asked virudhumagar special court foramecharges assets cases, and maked the desired as a suplementary report. Prima facile materials are awailable to frame against them.

Ordering restoration of the cases, Justice N Anand Venkatesh directed revenue minister Themark and finance minister themark and financ

Fire in Nagpur bldg kills teen, parents critical

parents critical
Nappur: A second blaze fore
through choked alleys of Itwari within a week, killing a Iryear-old girl, Anushka Bakhade. She had locked herself in
Goatel to death on Wednesdly,
The fire erupted in a two-storey
commercial-curu-residential
building at 4,30am.

The teen's parents, Pravin
and Renuka Bakhade, are battling for life in hospiral after
they too inhaled smoke. Her
they too inhaled smoke. Her
they too inhaled smoke. Her
they can be a be a true to the
terrace, leapt on an adjoining
one and walked down safely.
A fire official said the building is illegal. Toll recently
highlighted how itwari had become a ticking time bomb due
to mushrooming of godows
serial. — Viraj Deshpande

COMMERCIAL PREMISES REQUIRED at Cadell Road, Mumbai

A Leading Private Sector Bank requires commercial premises for long lease with good frontage on Ground Floor (around 1200 sq. ft carpet) between Hinduja Hospital Mahim & Shivaji Park on Cadell Road.

Interested parties may send their details to Vishal Khandke - 84519 06249 Sarika Vartak - 99300 63445

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

MOTICE is hereby given that our cliert his institucted us to investigate the title or Midshakal Bhoemi Vikas (India) Private Limited, a company incorporated under the viceosiss of this Companies Act, 1956 and desence designing under the Companies Act, 1956 and designing and the Companies Act, 1956 and 497 to understate adversignment of the fair and secretary of the Companies Act, 1956 and 1956 an office therefor in writing along with obscimentary prior to the underspined a use of inci-2.7 Finor. M. Models Building, 123 M. G. Road, Fort, Mambai 400001 with a copy in a rike of 10 krish ns., morthy office was displayed by com and half, inchiage was the control of the co

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

THE SCHEDULE ADDVE REFERRED TO (Description of the raid Land)

Well those pieces and purcels of Government land collectively admissioning 13,571 23 acquires meties comprised in a part of larger table bearing C.T.S. No. 494 [part] C.T.S. No. 495 [part] of Links of Land C.T.S. No. 495 [part] of Williage Wilderheadt in Tabular Kurten in Mambillo in the Consents to the Consents of Land C.T.S. No. 495 and C.T.S. No. 475 of Williage Wilderheadt in Consents the West by Perty by C.T.S. No. 495 and C.T.S. No. 479 of Williage Wilderheadt in Consents the West by Perty by C.T.S. No. 495 and C.T.S. No. 479 of Williage Wilderheadt in Consents the West by Perty by C.T.S. No. 495 and C.T.S. No. 479 of Williage Wilderheadt in Consents the Consents the West by Perty by C.T.S. No. 495 and C.T.S. No.

Dated this 8" day of August, 2024.



When it comes to integrated Electronic Security solutions. we do it all!



1800-111-264 preason@angindia.in angindia.in





Admission to M.Tech Sen-National Institute of Technology R to M. Tech Self-financed in vari

AnG India



व अदलाबदल) विनिमय १९८१ आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (जिमनीची विल्हेवाट) नियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार विविध योजनेअंतर्गत २०३० सदनिकांच्या विक्रीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सोडतीचे वेळापत्रक

Regd. Office: 3" Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai 400 021 Phone: +91-22-3555 5000 • Fax: +91-22-2204 2268 • E-mail: investor.relations@ril.c CIN: L17110MH1973PLC019786 NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY FORTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING (POST-IPO) AND INFORMATION ON E-VOTING

Reliance

FORTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Motica calling the Forty-seventh Annual General Meeting (1961-PD) (7-AGMF)

of the Company, sub-thidded to be held in correlations with applicable circulars

and the Company is sub-thidded to be held in correlations with applicable circulars

Board of Inda, through Video Conferencing (*VCT) (100th Aulio Visual Means

Board of Inda, through Video Conferencing (*VCT) (100th Aulio Visual Means

with Board Ropot, Anders 1962 and 40th Advancement required to be standardors

and consolidated audited financial statement for the financial year 2022-24, slong

with Board Ropot, Anders Report and other domesters experied to be standardors

company) which is exercised to the standardors of the Company's Needs to exercise the sevent of the Advanced to the solidate of the Company's Registrat and Transfeller Agent, Krim Internotinges Limited

(*Viginitary) in the Advanced to the Advanced to the Advanced to the Sevent Advanced to the Sevent Advanced to the Advanced to

Remote e-voting and e-voting during AGM:

agency to provide evoling facility.

Information and relationise compresing manner of voling, including voling remotely by members holding starters in domestication mode, physical mode and for members who have not neglected their emil address has been provided in the Notice of the AGM. The manner is which (a) persons who become members of the Company after designed of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cul-off Date (mentioned herein); (b) members who have forgother that level To and Passavord, and other in Central that User ID and Passavord, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: remote e-voting : 1:00 p.m. IST on Saturday, August 24, 2024 remote e-voting : 5:00 p.m. IST on Wednesday, August 28, 2024

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFin Tech upon expiry of the aforesaid period.

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poli") at the AGM.

Only a person, whose name is recorded as on the Cut-off Date, i.e., Thursday August 22, 2024, in the Register of members / Register of beneficial owner maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of remot e-voting or voting through insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail addr

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FACs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFnTech's websits for e-voting https://evoting.kfintech.com

Members are requested to note the following contact details for addre queries / grevances relating to e-voting, if any: Shri V. Balakrishnan, Vice President KFin Technologies Limited

Rk-in ternonceps Limited

With: Relational fundatives Limited

Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachbowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderatad 500 032

Femal: evolting:ril@kifntech.com

Toll-fee No. 1800 309 4001 (from 900 a.m. (IST) to 600 p.m. (IST) on all working days)

Joining the AGM through VC / OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through JloMest, at https://jjomest.jlo.com/rilagm. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for standing the AGM are explained in Note no. 9 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.



१ सोडतीसाठी ऑनलाईन अर्जाची सुरूवात दिनांक व वेळ दि. ०९/०८/२०२४ दुपारी १२.०० वा. पासून २ अनामत रक्कम भरण्याचा दिनांक व वेळ दि. ०९/०८/२०२४ दुपारी १२.०० वा. पासून दि. ०४/०९/२०२४ दुपारी ३.०० वा. पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटचा दिनांक व वेळ Debit Card/Credit Card/UPI/RTGS/NEFT इत्यादीद्वारे (ऑनलाईन) अनामत रक्कम भरणा करण्यासाठी शेवटचा दिनांक व वेळ दि. ०४/०९/२०२४ रात्री ११.५९ वा. पर्यंत सोडतीसाठी प्राप्त अर्जांच्या प्रारूप यादीची प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक व वेळ दि. ०९/०९/२०२४ सायंकाळी ६.०० वा. प्रारुप यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून ऑनलाईन दावे/हरकती दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ दि. १०/०९/२०२४ दुपारी १२.०० वा. पर्यंत सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जांच्या अंतिम यादी प्रसिद्धी दिनांक व वेळ दि. ११/०९/२०२४ सायंकाळी ६.०० वा. दि. १३/०९/२०२४ सकाळी ११.०० वा. सोडतीचा दिनांक व वेळ

(अर्ज शुल्क ₹ ५००/- + जीएसटी @ १८% ₹ ९०/- = एकूण ₹ ५९०/- अर्ज शुल्क विना परतावा)

अ.क्र.	योजना	एकूण सदनिका
०१	नव्याने बांधकाम चालू असलेल्या सदनिकांचा तपशील	१३२७
96	विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) (७) ५८ अंतर्गत विकासकाकडून प्राप्त सदनिका (नवीन व मागील सोडतीमधील सदनिका)	₹⊌0
03	मागील सोडतीमधील विविध वसाहतीतील विखुरलेल्या सदनिका	333
	एकूण	₹0₹0

https://housing.mhada.gov.in https://mhada.gov.in Mobile App- MHADA Housing Lottery System

योजनांची सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका इत्यादी दि. ०९/०८/२०२४ रोजी दुपारी १२.00 वा. पासून उपरोक्त संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.

मिलिंद बोरीकर

मुख्य आधकारा, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई म्हाडा - गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था



Samir Modi Replaced by Sister Charu on Godfrey Phillips Board

BATTLE FOR UP TO ₹30K CR Samir and brother Lalit Modi are fighting their mother Bina, chairperson and MD of the co, over inheritance





Mohit Bhalia over an inheritance that could be worthamywhere between #10,000 arone, the sources said.

New Delhi: Samir Modi habe emergent #10,000 arone, the sources said.

New Delhi: Samir Modi habe emergent #10,000 arone, the sources said.

New Delhi: Samir Modi had sought protection browd from the board of Godfrey Phillips had at a meeting held to day where the company's direction from a south Delhi court in June fearing that the could be removed from the board of whether bina Modi. When the company's board by the direction is count alienging that they had conspired to hose the company's direction in court alienging that they had conspired to hose the spanning to the company's direction in court alienging that they had conspired to hose the spanning to the company's direction in court alienging that they had conspired to hose the spanning to the company's direction in court alienging that they had conspired to hose the spanning to the company's direction in the board of Godfrey Phillips. The company's board by the direction where the same when it is charperson and managing direction is count alienging that they had conspired to hose the company's board by the direction where the company's domes and the domes and the domes and the company's domes and the company's domes and the company's domes and the d

Blue Star Q1 Net Up 2-fold at ₹169 cr

New Dolhi: Air condition and commercial refrigeration system maker Blue Star has reported a two-fold increase in consolidated net profit at 1688 crore in the first quarter ended June 2024, oiling products and cost management efforts.

The company had posted a net profit of 1683 crore in the April-June quarter of the previous fiscales and the star of the previous fiscales are said in a regulatory filing.—WII.

Torrent, Zydus Make the Cut for JB Buyout, EQT may Join Fray

KKR co's acquisition seen as \$3b deal; suitors shortlisted last week; DRL too sends feelers

Arijit Barman, Vikas Dandekar & Reghu Balakrishnan

A Reghu Balakrishnan

Mumbai: Torrent Pharma and Zydus LiMessclences, the fifth and the sixth largest
domestic drugmakers, are set to battle in
utt for JB Chemicals & Pharmaceuticals, possibly along with EQT and others.
It is the control of the control of the control
extra possibly along with EQT and others.
It is the control of the control
extra possibly along with EQT and others.
It is the control of screen
ing by KRK, current owner of the 48-year- old JB Pharma. Torrent, seen as the
strongest suitor, has initiated discussions with banks for financing.
It is the control of the control of the control
onake the cut; while Hyderabad headquartered Dr. Reddy's Laboratories is understood to have sent feelers to KRK but is yet
to submit any offer, said the people cited.
KRK arm EAU Investment owns \$3.78^h
experience (\$3.5 hillion). The acquisition will trigger an open offer for another
28%, as it will lead to a change of control,
which means the new owner could end up
paying as much as \$2.5.75.1 crove (\$2.8 billion). KRK had acquired the stake for aboh
founding Mody family in July 2020. JB
Chemicals closed at 1,917.50 in the SES
Wednesday.
ET was the first to report May 4 that do

ET was the first to report May 4 that do

KKR's Booster

Five acquisitions
— Sanzyme,
Azmarda, 4
paedilatric torands
of DRL, Razel,
ophthalmic
brands of
Novartis

orders & diabete:
Legacy brands
including Rantac
posting CAGR of
15-22%

Expansion into ti
cities and beyond

towards of the control of the contro





Regd. Office: 3" Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai 400 021
Phone: +91-22-3555 5000 Fax: +91-22-2204 2286 - E-mail: investor relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY FORTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING (POST-IPO) AND INFORMATION ON E-VOTING

FORTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING Mode calling the Forty-seventh Annual General Meeting (Post-PO) ("AGM") of the Company, scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Minstry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Beard of Insite, through Veloc Conferencing (VPC) Offer And/O Veloc Meeting College (VPC) of the And/O Veloc Meeting (VPC) of the Administration of the And/O Veloc Meeting (VPC) of the Administration of the And/O Veloc Meeting (VPC) of the Administration of the Admin

("N-Pin lach"), at https://evoling.kmitech.com.
The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronica for inspection by the members from the date of circulation of the Notice of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an end in rilagm@ril.com mentioning his / her / its folio number / DP ID and Client ID.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

agancy to provide evoling facility, agancy to provide evoling facility, information and instructions comprising manner of voling, including voling remotely by members holding states in demasterialised mode, physical mode and for members who have not registered their entail address has been provided in the Notice of the AGNI. The manner in which (a) persons who become members of the Company after designed high Notice of the AGNI and holding states as on the Cul-of Date (mentioned herein); (b) members who have strogation the User D and Password, can other in Generals the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGNI.

and Hassendo, has also been provised in the Notoc for the Alox.

The remote e-verified light will be a variable during the following voting period:
Commencement of remote e-voting: 1:500 p.m. IST on Statutidy, August 28, 2024.

The remote e-veting is 1:500 p.m. IST on Statutidy, August 28, 2024.

The remote e-veting will not be allowed beyond the adversald statutidy and the remote e-veting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the adversals period.

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM. Place: Mumbai Dated: August 8, 2024

Only a person, whose name is recorded as on the Cut-off Date, i.e., Thursday, August 22, 2024, in the Register of members / Register of beneficial owners maintained by the Depositories, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail address:

- mainter or registering ir Qualing e-than autorizing e-than autorizing.

 3) Members holding shares in physical mode, who have not ingletered i updated their e-mail address with the Company, are inquisited to register i update inferential address by submitting Form ISIA-I (evaluation on the weeks of the Company at www.nt.com) duly filed and signed along with requisite supporting documents to inferillent at their Relations broaders turnled, Selentum Tower By PELS1 8.3.02, calcidoner, Francial Estert, Newslaverpular, Hybratad 500 102.
- b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register i update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown manu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com.

Members are requested to note the following contact details for addre queries / grievances relating to e-voting, if any:

quaries / grisvanoss relating to e-voting, if any.

Shri V. Balainthans, voto Presidenti
KFn Technologies Limited
Unit: Relations falleriste Limited
Selenium Tower B, Ph. 03 18 32, Gachibowli, Financial District, Nanakrangulas,
Hyleratinad 500 025.
E-mail: e-voting-riigi@kintech.com
Tokkev No. 1800 036 040 (fems 150 a.m. (ST) to 600 p.m. (ST) on all working days)

Joining the AGM through VC / OAVM:

Joining the Asia Hirolgy I. CAVRIE.

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through
JioMeet, at https://jiomeet.ji.com/inligam. The information about login
cincellantials to be used and the steps to be followed for attending the AGM
are explained in Note no. 9 of the Notice of AGM. Members with have cast
their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be
entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP

Registered Office: N-806-A, 8th Floor, Diamond Heritage Building,

EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2024

						į	(Rs. in Crores)
		Standalone			Consolidated		
		3 months ended 30.06.2024 UNAUDITED	Year ended 31.03.2024 AUDITED	3 months ended 30.06.2023 UNAUDITED	3 months ended 30.06.2024 UNAUDITED	Year ended 31.03.2024 AUDITED	3 months ended 30.06.2023 UNAUDITED
1	Total Income from operations	497.82	2,316.79	454.72	559.91	2,625.97	522.60
2	Net Profit/(Loss) before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	116.54	774.25	120.22	135.66	924.51	145.03
3	Net Profit/(Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	114.39	692.02	120.22	133.51	917.24	145.03
4	Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.35	520.90	90.04	96.75	677.70	106.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	84.96	519.22	87.89	94.04	679.96	103.43
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value - Rs. 2 each)	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the audited Balance Sheet as at 31st March, 2024		3,443.51			3,814.48	
8	Earnings per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs. 2 each):						
	(a) Basic (b) Diluted	1.36 1.36	8.33 8.33	1.44 1.44	1.47 1.47	10.22 10.22	1.66 1.66

- TES
 The above is an extract of the detailed format of Quaterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quaterly/Annual Financial Results is available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website, www.elindi.com.

VIKRAMJIT SINGH OBEROI

Managing Director and Chief Executive Officer (DIN: 00052014)

LUPIN LIMITED

Registered Office: Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai 400 055.

Corporate Identity Number: L24100MH1983PLC029442

Tel: (91-22) 6640 2323 E-mail: info@lupin.com Website: www.lupin.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER JUNE 30, 2024

			(₹ in million
Particulars	Quarter Ended 30/06/2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30/06/2023 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2024 (Audited)
1) Total Revenue from operations	56,003.3	48,140.6	200,108.2
 Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional and/or extraordinary items) 	9,930.3	5,587.9	24,222.7
 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 	9,930.3	5,587.9	24,222.7
 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 	8,013.1	4,522.6	19,144.8
5) Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	7,521.0	4,192.9	19,551.8
6) Paid up equity share capital (Face value ₹ 2/- each)	911.9	910.2	911.4
7) Other equity (as shown in the Audited Balance Sheet)			141,991.5
8) Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (Not annualised for the quarters)			
a) Basic (in ₹) :	17.58	9.94	42.05
b) Diluted (in ₹):	17.52	9.90	41.87

NOTES:

1. Key numbers of Standalone Results are as unde

	(< in millo		
Particulars	Quarter Ended 30/06/2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30/06/2023 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2024 (Audited)
Total Revenue from operations	41,676.3	34,956.4	146,665.0
Profit / (Loss) Before Tax	10,829.2	5,765.3	27,846.9
Profit / (Loss) After Tax	8,891.8	4,769.6	23,260.9

- 3. The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.beindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.lupin.com.

By order of the Board For Lupin Limited

Nilesh D. Gupta Place: Zurich Date: August 06, 2024 Managing Direct DIN: 01734642

'जागावाटपात

जिस्टिक धोरणास मंजुरी

म. टॉ. आस प्रांतानया, मुंबर महाराष्ट्र लॉग्निंटरक धोरण २०१४ या धोरणाला राज्य मिमंद्रकाते अवर्षेत्र बुधवारी मान्यता दिली. है धोरण असलात आणल्यास राज्याल येखा पाच वर्षाते सुमारे ३० इजार ५०% कोटीचे उत्तम्न होगार आहे. राज्य आधिक सल्लागा राप्तरेने केलेला शिकारात्रीनुवार लॉग्निंटिक धोरण तयार रूपणान आले आहे. है धोरण पूर्वील १० वर्षातील विकासाला नजरसमीर ठेजन तथार करण्यात आले आहे. या धौरणामुळे राज्य मुमारे पाच लाख रोजगार्गिनीती होहल.

सध्याच्या १४-१५ टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४-५ टक्क्यांनी कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध

राज्याला पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित

- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्त्व
- पाच लाखांची रोजगारनिर्मिती होणार
- १० वर्षांतील विकास नजरेसमोर ठेवून आखणी

चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर. ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार. श डिझाइन, मोडल शिफ्ट या बाबी यात समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत समाविष्ट आहत, या क्षेत्रात दशातगत व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक केंद्र हा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तथार करतांना



जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यातील अडचणी दुर

नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग

लॉजिस्टिक हव म्हणून पनवेल येथील नवीन ऑतराप्ट्रीय विमानतळाणी संतलन नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रत र हजार एकस्टरा इंटरनेशनल माग लॉजिटिक केंद्राचा विकस्तित करण्यात चेईल, त्याच्याणी नवी मुंबई ते पुणे है क्षेत्र तळाच्या सावकाणा, स्वायनं, बोणंता, महाइ, छत, चाकणा, तळगांव या औद्योगिक यसाहती संतलन असल्यामुळे है क्षेत्र आंतराचेश स्वतायरील व्यापार व उद्योगीच प्रमुख केंद्र होईल.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक केंद्र

नागपूर- वधां नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हव हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हे केंद्र हिंदुहदयसम्राट बाळसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी

महामागांशी जोडले असून, नागपूर जिल्लाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केट्रीय स्वानामुळे लॉजिटिक केट्राव्या विकासासाठी अनुस्तान आहे लिल्लाट र ग्रष्ट्रीय दूताती मागे आणि एक समर्पित मालवाततूक जॉलेडर प्रमाणिश्वास्त असून जिल्ला पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याये प्रमुख केट्र मणून ओळखाला गोला आहे. या बेह्हासाठीडी पंपायों कोटी रुपयांची तत्तुद करण्यात पेईल.

राज्य लॉजिस्टिक केंद्र

प्रयात येईल

न्यायमूर्तींना विविध सुविधा न्यायमूर्ती सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वालकसेवा असे सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यूपश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस हे लाभ देण्यात येतात. किया पत्नास ह लाभ देण्यात यतात. ह लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या परंतु इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिनृत झालेल्या किया मृत्यूपरचात त्यांच्या जिवंत पती किंवा पत्नीस देण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली.

नमते घेऊ नये!' मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत मुंबई : लोजसभा निवडण्यंतीत आल्या माणवाट्यात अधिकत गाण न मिळाल्याते विधाससभा निवडण्यंकीत ही पुरापृत्ती राळण्यासाठी करियले आजातपातृत्त्व सात्रप्रधारम् आत्रप्रदास अध्याप्तात्त्र करियले आहे. त्यानुसार पक्षाने जागावाट्याच्या चर्चत नमती पुरापृत्ता राज्यं ने जागावाट्याच्या चर्चत नमती पुरापृत्ता राज्यं ने जागावाट्याच्या चर्चत नमती पुरापृत्ता करियले चर्चता कर्मती आत्र आहे. आगावाट्याच्या चर्चता सहत्या वरिष्ठ ने लेखीं जात आहे. जागावाट्याच्या चर्चता करियलं चर्चाच्या कर्माणीया चर्चया चर्या चर्चया चर्या चर्चया चर्चया चर्चया चर्चया चर्चया चर्यया चर्चय

राजिय (गाजास्टक कक्र छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिगे-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर व पालघर-वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लाजिस्टिक केंद्रे लॉजिस्टक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात उंढेल.

सागाना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीचर महाविकास आघाडीची विशेष बैठक वृथवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. लोकसभा वरिप्त नेत्यांची बैठक झाली, लिकस्भा निवडणुकीत कविसला मिळालेले यश महत्त्वाचे असून, जाणाबाटप निश्चित्त करताना त्यानुसारच निर्णय प्रोण्याची माणणी यावेळी अनेकांकडून करण्यात आली, तर या निवडणुकीतरी दलित आणि अल्पांक्याक मानांदर लक्ष केतीत करण्याची सूचना पूढ़े आली. ज्यांची कामींगीरी सरस त्यांचा मुख्यमंत्री हे पोरण असावे, अशी माणणीही अनेक नेत्यांकटन करण्याची श्राचन नेत्यांकडून करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

निवडणुकीदरम्यान लोकसभा ताकसमा । नवडणुकादरम्यान सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना '५० खोके, एकदम ओके' हा प्रचाराचा मुद्दा बनवण्यात आला होता. विधानसभा

विधानसभा निवडणुकीसाठी वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची भूमिका

- तिन्ही पक्षांच्या कामगिरीचा
- मिळणाऱ्या जागांनुसार ठरणार प्रचाराची रणनीती



जागा निश्चित झाल्यानंतर प्रचार

झाल्यानतर प्रचार विधानसभा निव्हणुकीसाठी पक्षाच्या वाट्याला कितो जागा येतात, हे निश्चित झाल्यानंतर प्रवाचारी चरणनीता उरावणी जाणाः आहे. सच्या पक्षाला १२०च्या आसपास जागा मिळतील असे गृहित परूल-तानुसस प्रचाराची राणनीत उरावली जात आहे. मात्र त्याहुन कभी जाता भारत्यस्यास्य व्याचात्र वाह्याहुन कभी जाता भारत्यस्यास्य व्याचात्र्याहुन कभी जाता भारत्यस्यास्य व्याचात्र्यस्य व्याचात्रस्य स्याचात्रस्य स्थानस्य व्याचात्रस्य स्थानस्य व्याचात्रस्य स्थानस्य स्याचात्रस्य स्थानस्य स्याचात्रस्य स्थानस्य स्यास्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्था

निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती करतानाच, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांविरोधात लहत असलेल्या मतदारसंघांत त्यानुसार प्रचार करण्याची सुचना दिल्लांतील ज्येष्ठ नेत्यांकडून देण्यात आली आहे. याशिवाय महागाई, शेतकरी आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवरही प्रचारात भर दिला जाणार आहे

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

अनुसूचित जाती व जमातींच्या जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला महायुती सरकारने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र भागस प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनयम २०००मध्ये सुधारणा करणण्या २०००मध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत

संबंधित नियमांमध्ये होणार सुधारणा KIN in min

आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची मान्यता देण्यत आली. पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद चुकीच्या नॉदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात

कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि यय आयुवद महाविद्यालय आण आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात

आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेला अर्थसाह्य

घण्यात आला आह. या धोरणांतर्गत २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा

औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसाह्य योजनेतुन सहकारा संस्थासाठा अथसाह्य योजनतुन जुन्नरच्या श्री कुकडेण्यर आदिवासी हिरहा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेस एका वेळेचे अर्थसाह्य म्हणून दोन कोटी रुपये देण्यात येतील.

दोन संस्थांचे मुद्रांक शुल्क माफ सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल टस्टला मद्रांक शल्कात १०० टक्के

सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिम बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील राधा कल्याणदास दर्यानानी चीरटेबल ट्रस्टला तसेच आर्मी वेल्फेअर एउंचुकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल

वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता

महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ८७ हजार ३४२ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई



ात्या आत्राः मेमध्ये राजत यांच्यावर मेमध्ये राजत यांच्यावर मेमध्ये राजत यांच्यावर टीका करताना मोतिग यांची त्यांचा साम' महण्या संबोधनी होते. तसेचा याजत हे उद्भव ठाकरे यांचा विषयप्रस्थात करून १० जुम्पर्येत राष्ट्राची क्रियंत वांचा त्यांची करण्यावस्त्र राजत यांची केल्यावस्त्र राजत यांची नीरोश योच्यावियोचा केली. यापूर्वी जानेक्योमध्ये ज्यायालयांने नितेश यांच्यावियोचा अज्ञानीनपात्र चांट काढले होते. त्यानंतर १६ फेब्रुकारी रोजी न्यायालयात इतेरी हात्यस्त्राची नायालयाने ते वांटर रहे केली होते.

'कोल्हापुर बंधाऱ्यांची

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

'शिंदे यांचा रेकॉर्ड तुटणे कठीण!'

'योद्धा कर्मयोगी'च्या प्रकाशनावेळी फडणवीस यांचे प्रतिपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, ठाणे

म. टा. खास प्रतिनिधी, वर्णे
'वा जकारणामध्ये प्रत्येक नेत्याचे
संगराव्ये देशोह हैं तह असले, तर्गे
मुख्यमंत्री परकाश विदे चार्थे केलेला
तर्गाई दूरणे कर्णे। आहे. सराभावन्व करार्थे हो तिस्त अस्त हैं तह असले, तर्गे करार्थे हो तिस्त तर्गी दाख्यलं करार्थे हो तिस्त तर्गी दाख्यलं होच हिंसस खऱ्या अधीन तर्थोंना या पुरस्काशी व्यक्त बनत्वी, ओर सन प्रत्यक्ता विश्वास बनती, जोर सन प्रत्यक्ता विश्वस बनती, अहे सन प्रत्यक्ता व्यक्त केले. मुख्यमंत्री विदे यांचा जीवनपट कलाङ्गण्या प्रा. ही. प्रतीय इक्क आणि डॉ. अस्टेश्यों भावत्य, राज्य कर्माणां प्रत्यक्ता प्रकान कर्माणां प्रत्यक्ता कर्माणां प्रकान कर्माणां प्रत्यक्ता कर्माणां प्रकान कर्माणां प्रत्यक्ता कर्माणां प्रयादनमध्ये प्रत्यक्ता कर्मी, प्रायङ्गणां प्रकान हस्ते झाले. यांचेळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिपारं व्यक्त प्रपत्ता वर्मा



'शिंदे यांचे आयुष्य अमिताभप्रमाणे'

शिरं याच आयुव्य आमताभूमाण' शिरं यो आयुव्य असिता बच्चा लंबारमाण ओह. बच्चा यो दिवर' विवयद्यमध्ये वेगळे रूप दिससे, त्यानंतर 'जंजीर' मधून त्यांनी वेगळे रूप दाखवलं, 'असे राज्यासल सी भी. राषाकृष्णन सणाले. 'छत्रपती शिवाजी महाजांमुळंब आएसी संस्कृती दिवन आहे. पारतीय लोकशाही सर्वात शक्तिशाली आहे,' असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

गीलमा गाँवे तसेवा पदक्षी शंकरावावा गायकार, योच्या साहित्य मा भागि कर्णिक, साहित्य मा भागि कर्णिक, साहित्य मा भागि कर्णिक, साहित्य मा भागि कर्णिक, साहित्य संमेदनात्र्यकर वर्षिट शोगों यांच्यासत गंकी, आमदार आणि व्यासदार उपस्थित होते, 'असे साह ना माहवा आयुष्याचा शंदर नाती, हात तमा माहवा आयुष्याचा शंदर नाती, हात तमा माहवा आयुष्याचा केराव्य नाती, 'असे सांचा सुक्यमंत्री शिंद योच कर्पकर्त्याचेवा हम् योच कर्पकर्याचेवा हम् योच कर्पकर्याचेवा हम् योच कर्पकर्याचेवा हम् योच कर्पकर्याचेवा हम् योच सहस्याचेवा हम् योच सहस्याचेवा हम् योच सहस्याचेवा हम् योच सहस्याचेवा हम् योच सहस्याच हम्साचेवा हम्याच्या कार्यकर स्वर्थकर एक्स स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ सांचा स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ स्वरंभ सांचा स्वरंभ सांचा सां

काम प्रामाणिकरणं केले, तसेच प्रत्येक गोप्ट समाजाचा विचार करून केली, ' असे ते सण्याले. ' 'राजकराणामध्ये एकनाथ शिदे २००४ मध्ये, तर देवेंद्र फडणवीस १९९१मध्ये आले. मी १९९०साली आले. प्यान वर्षाच्यानाति सिलोड आहे. पण ने दोचे पूढे मेले आणि मात्र मार्ग गोरिता', ४० अप्तरत आण्याच्यानेत मुख्यमंत्री करणार हे मार्गित असले, तर अल्ब्बा पश्च घेजन आले असले, तर अस्त्र मणत उपमुख्यमंत्री अजित पया वर्षाचे भाषणात जोरदार टोलेबाजी केली.

नीतेश राणेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट

साठवणक्षमता वाढवा'

अजित पवार यांची सूचना



सहलोटसव टयुलिप

- भारतीय सहसी राजस्थान मेसाड (१ दिवस) राजस्थान मासाड (६ दिवस) अमृतसर घरमधाला इनहोत्ती पालमपूर (१ दिवस) स्टप्यु ऑफ शुनित (३ दिवस) सिक्कीम प्रतिकात (१ दिवस) आसाम मेघालय (६ दिवस)। इंदोर उज्जेन मांडू (५ दिवस) अमोध्या आरामी प्रधालय (६ दिवस)।

- अयोध्या वाराणसी प्रयागराज (६ दिवस) केरळ (६ दिवस) | कूर्ग ऊटी म्हेसूर (७ दिवस) बेस्ट ऑफ अंदमान (७ दिवस)

- स्कैंडिनेव्हिया-नॉर्दन लाइटस् (8 दिवस) (२० फेब्रुवारी २०२५) ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड (१६ दिवस) बेस्ट ऑफ जपान (8 दिवस) जपान चेरी ब्लॉसम स्पेशल (9 दिवस) (26 मार्च 2025)

- व्हायब्रन्ट व्हिएतनाम (10 दिवस) सिंगापुर थायलंड मलेशिया (11 दिवस)
- (20 सप्टेंबर 2024 काहीच जाग शिल्लक) मार्वलस मॉरिशस (6 दिवस) । दुबई अबू धाबी (6 दिवस) नेपाळ चितवन पोखरा काठमाडू (8 दिवस)

राष्ट्रवादी शप काढणार

शिवस्वराज्य यात्रा



म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्थ्यभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहरवंद पवार पक्षानंती ६ ऑगस्टपासून शिवस्वराज्य कांग्रेस शहरवंद पवार पक्षानंती ६ ऑगस्टपासून शिवस्वराज्य कांग्रा कांग्रेस कंपने पाटील यात्रेसे नेतृत्व करणार आहेत. किल्लं प्रायमा येथून या यात्रेसी सुरुवात होणार आहे.

होणार आहे. बुधवारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या यात्रेची घोषणा केली. यावेळी यात्रेचा टिझर् व लोगोही प्रसिद्ध वायका बात्रया दिशर व लागाल प्रसिद्ध करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात १० दिवसांत ही यात्रा महाराष्ट्रातील पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, जालना, लातूर, बीड, नांदेड या सात जिल्ह्यांतून फिरणार

ह. 'महायुतीचे सरकार आल्यापासून य अधोगतीकडे चालले आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडली आहे. शेजारचे राज्य आपल्या तरुणांच्या हातचे काम हिसकावून घेत आहे. राज्यकर्ते मात्र हतबल आहेत. आहे. राज्यक्ते मात्र इताबण आहेत. त्याचुं आप्री साह्याचे साह्याचे आक्रे कारामां घेउन जनतेच्या दरखारात जाणा आहेत, अंधे प्रदेशाच्यक वर्षता पार्टीत इत्याचि, लोकस्त्राम निवडणुकीत जनतेने केट्र व राज्य सरकारावावत तीव नाराजी व्यव्यक्त केट्री. उच्याचीत ४८ पैकी ३१ जागांवर मात्राविकास आपादीचा विवद्य जाला. व्याचुके सरकार प्रयक्तन योजनांचा प्रदिक्तार करत आहे. सरकार ज्या घोषणा करत आहे ज्या जनतेवाली पटना माहित, असा दावा पार्टील यांनी केट्रा.

a Reliance

नोंदगीकृत कार्याक्यः ३रा मजला, मेकर धेंबर्स ४, २२२, नरियन पॉइंट, मुंबर्द ४०० ०२९ दूरायनीः +९९-२२-३५५५ ५००० - मॅक्स: +९९-२२-२२०४ २२६८ - ई-मेल: investor relations@di.com CIN: L17110MH1973PLC019786

कंपनीच्या सदस्यांसाठी सूचन

सत्तेचाळीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (आयपीओ-पश्चात) आणि ई-मतदानासंबंधी माहिती

भारपाळाभावा वाध्यक संवद्धांप्राप्त स्वावाधिक संवद्धांप्राप्त भा भा अविद्याली क्ष्याली के अन्य स्वावाधिक अभिक्षा स्वावाधिक स्वाविक स्वावाधिक स्वावधिक स्वावाधिक स्वावाधिक स्वावाधिक स्वावाधिक स्वाविधक स्वावाधिक स्वाविधक स्वावाधिक स्वाविधक स्वाविधक स्वाविधक स्वावाधिक स्वाविधक स्वाविधक स्वाविधक स्वावाधिक स्वाविधक स्वावाधिक स्वाविधक स्वावाधि

ाष्ट्रभावना समार्तित करणायाः तारक्षेत्राच्या आहेत. एपोराची सूचना प्रसारित करणायाः तारक्षेत्राच्या सूचनेत नमूद करणात अ दस्तऐक वादस्यांच्या तमास्तासाठी इतेक्ट्रीनिक च्यतिने उत्तरमा आहेत. ज्या सदस्यांचा दस्तऐक तथासून पहाच्ये असतीत त्यांनी त्यांचा/तिचा/व्यांचा फीठिओ क्रमांक/डीपी अ आणि कत्रयन्ट आयतीं नमूद करना rilagm@ril.com थेथे ई-मेत पाठवारे.

दुरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदानः

कंपनी ज्याच्या सदस्यांना एजीएनकपी मंदूर करण्यासाठी प्रस्तावित असलेर्य्या ठरावंतर इतेब्द्रपृत्तिक पद्धतिते ("ई-महद्वार") मादान करण्यासाठी शुरीया उत्तरस्य कला रोत आहे. सदस्य येथे खाती मृद्ध करण्यात आहेत्या तारसांना दूरस्य पद्धतिने मादाना करू कार्यात ("दूरस्य ई-मह्माद्भ"), अपनेने ई-महद्यन सुविधा उपत्रस्य करन देश्यासाठी केलेन्ट्रेक यांच्या सेशा प्रीतम्या आहेत.

नहां प्रतास आहा.

किटिनिज्यां के स्वरूप अपने संक्रमा कामण धारा करवाया आणि आंगी त्यांचे त्यांचे हैं - केसे से मी मीडिनीज्यां कर स्वरूप मा प्रतास महाने प्रतास करवायां के स्वरूप मा प्रतास महाने प्रतास करवायां हैं - केसे से मी मीडिनीज्यां के स्वरूप मा प्रतास महाने प्रतास करवायां हैं के स्वरूप में स्वरूप मा प्रतास महाने मा प्रतास अपने त्यां के स्वरूप में स्वरूप मा प्रतास करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां करवायां करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां की स्वरूप मा प्या करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां करवायां करवायां की स्वरूप मा प्रतास करवायां करवाया

दुरस्थ ई-मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीत उपलब्ध असेर

दूरस्थ ई-मतदान सुरू होण्याची वेळ : शनिवार, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२४ रोजी भाग्रवेळ दुपारी ०९:०० वाजता

दुरस्थ ई-मतदान संपय्याची वेळ : बुघवार, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२४ रोजी भाप्रवेळ सार्यकाळी ०५:०० वाजेपर्यंत

सायकाळा ५००० वाराज्यता वरीत तारीध्य व बेळेलंतर दूरस्य ई-मध्यन सम्प्राची श्वसानी दिली सामार नाही आणि केलिनटेक द्वारा करीत व्यक्तात्रमधी संस्थानांतर दूरस्य ई-मध्यन मॉक्सून संद करणाता येहेल. जानी दूरस्य ई-मध्यन मद्धानी मध्यान केलेने नाही कर्म प्रणिसना व्यवस्थात कालेने सदस्य एपोलमाच्ये देक्नीयां क्यूनी मध्यान (पंत्रस्य प्रक्र) कालकरीत व्यवस्था

पुरुवार, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी अंतिम मुदतीच्या तावकेता विवासिदरी ठेक्केच्या सदस्यांचे रिक्टर/जाभधारक मात्रकांच्या रिक्टर मध्ये ज्यांचे मात्र मंदिव आले असेल अशी व्यक्तीच कत्तर दुरुच्य ई-मतदान सुनियंचा लाभ मेळ शकतील र्रिका व सर्वेताधारण सभेत सङ्गामणी होक शकतील आणि इन्स्टा पोलट्टारे मतदान करू शकतील.

ई-मेलचा पत्ता नोंदवण्याची / सुधारणा करण्याची पद्धती:

8-शाला था गाल्यच्या पुचारा करवामा पुचार ३) शांकी र स्वत्य कराण घरण कराण स्वत्य कराण कर्म प्रथम में नंदर्गी गुणावण केनी साहि वार्ची अध्यक्षक पुक्र स्वत्येक्ष्मंत्र क्षांच्य आर्थि स्थारी केने प्रथम आरयाप्त्रमान ने विकर्णिय बेस्सार्टिक स्वत्यक्ष्मं पत्मक अहो केनिलोक विकास (इंतर्गीक तिनिक्ष्मं मां केनेप्रिय दोला पी.) १३, गार्विवाल, भारतानिकात वितिष्ठण, मान्यवस्थात, हेटलाइ ५०० १३, करून तांच्या 2-नेक पत्मार्थ निजी, प्रस्ता प्रथम विकास विकास विकर्णा


अवानी अजून किर्चोक्रिटरी सहमानी यांच्याकके त्यांच्या ई-मेल परवाची नोदानी/सुधारणा केर्ल नाही अला क्रिनोटीश्वलाईक स्वरूपात समाना धारण करणाऱ्या सदस्यांना क्रियोक्षिटरी सहमानीकके त्यांच्या ई-मेल परवाची नोदानी/सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई-मतदानाशंबंधी काही हांका असरव्यास, सदस्यांनी केफिनटेकची वेबसाईट. https://www.fig.kfintech.com येथे ई-मजदानाशाठी उपलब्ध असरेल्या "शहरूनकोहरा" भागात ईम्पिडकन द्वाच प्रस्तव्य असरेला "हेस्प" आगि "एकएकपू" भाग/ई-मतदान यारप्याविषयी माहिती पुरत्वक पदाये.

ई-मतदानासंबंधी काही चीकशी/तकार असल्यास, सद इ-साराग्याश्वाया काह्य चाक्यात्रा (तकार असंस्थायत, सदस्याना खालाल संपका पेत्र्याची विनादी करण्यात घेत आहे: श्री. वहीं, बालात्रिक्यमा, उपाध्यक्ष केरिका टेक्नोलंजीजीज लिमिटेड, यूनिट: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१–३२, गचीबॉक्टी, सायनाश्चियल डिस्ट्रिक्ट,

स्थळ : मुंबई दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०२४

रेतिनाथम् ८०० २०॥ मामामाम्मुम् १८ १८० १५०० ०३२ ई-मेतः evoling.fl@kfiniech.com टोक क्री क्रमांकः १८०० ३०६ ४००१ (सर्व कम्पकताचे दिवती सकाडी १०० (माप्रदेख) ते ^{प्रमा}न्याच्या १.०० (माप्रदेख) वर्तेत) व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएममध्ये सहभागी होणे: स्तरण जिओमिट द्वारा https://jionset.jio.com/rilagm येथे ब्हीर्गा/ओएबिएम एजीएमला उपस्थित राष्ट्र शकतील. येथे वारनण्याची लांबहनची माहिती आणि एजी उपस्थित राष्ट्रणावे रूपे यासंबंधी माहिती एजीएमचा सूचनेत दिग्र क.९ मध्ये देण्यात अहे. ज्यांनी दुरुषा ई-मन्तदान पदलीने मतदान कले आहे असे तस्वय एजीएमला उपस्थित शकतील चरंतु पुन्त एजीएमणचे त्यांचे मतदान कल्यावा पात्र नसतील.





फटाफट खबरें

बेबी फुड के 5% सैंपल अनसेफ

संपत् अनस्पार विस्त, नई दिस्ती : वेवी फूड के 5% सेरल अन्सेफ मिले हैं। संसद में यह जानकारी दी गई। डेकेटर का कहन है कि इस तरफ के फुड से बच्चे को डायरिया हो सकता है। राज्यों के फूड रेंड इना रेडोमिन्ट्रेशन इस्के सेयल लेता है और जांच फूड रेंगुलेटर FSSAL की लेवा में होती हैं। इस साल 22 आले से 31 माई के बीचा 11 सेरल लिए यह हो। इस्में 00 लिए

काली नदी पर पुल ढहा, ट्रक नदी में गिरा



 भाषा, पणजीः कर्नाटक के
 अधिकारियों ने काली नदी पर एक अधिकारियों ने कारती नहीं पर एक पूराने पुरा के ढहने के बाद बुधवार को NHAI को इस नहीं पर बने नए पुरा की मजबूरी की जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने बताया के कारी नहीं पर स्थित पुराना पुरा मामताय देर रात करीब डेढ़ बजो तब ढह गया जब उसके उजर से एक इस गुजर रहा था, जो नदी में पिर गया।

उत्तराखंडः सोनप्रयाग

में अस्थायी पुल बहा म अस्पाया पुल बहा
। आईएएनएस, सीनयागः कैयरनाथ यात्रा के पड़ाव सीनायाग
मैं मार्वाकिनी नदी का अप्तरस्य बढ़ने
से सेना द्वारा सोना और मंत्राविकी
संभा के पास बनाया गया अस्वार्थी
फेरान के पास बनाया गया अस्वार्थी
फेरान के पास बनाया गया अस्वार्थी
प्रत्य पुल बहा मार्थी । ब्रांधी
को अपना प्रत्य । ब्रांधी
को अस्वार्थी
पुल बहा गया। बता दें
कि हस स्थान पर सोना ने ये पुल
बनाय है, जिनमें से एक पुल समान
के पासन नदी भार कर सीनायाग की
और बनाया गया। की

ऊनो मिंडा लिमिटेड

3,817.51

277.47

277.47

210.80

199.84

114.83

3.46

थान : गुडगांव (हरियाणा) देनांक : 07 अगस्त, 2024

(पूर्व की मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

दूरभाषः +91 11 49373931, +91 124 2290427 फैक्सः +91 124 2290676

र्द-मेल: investor@unominda.com वेबसाइट: www.unominda.com

निकट आईएमटी मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) -122004 CIN: L74899DL1992PLC050333

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)

कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)

अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (क पश्चात) से मिलकर]

आर्राक्षतियां (पुनर्मूल्यांकन आर्राक्षतियां को छोड़ जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में

प्रदर्शित हैं) आय प्रति शेयर (रु. 2 प्रत्येक का ऑकित मूल्य) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) वार्षिकीकृत नहीं

कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के

114.82 6. इक्विटी शेयर पंजी (क. 2 प्रति शेयर अंकित मल्य)

(स्तत तथा असतत प्रचाल 15.36 (क) बेसिक (रु. में) 15.34 (ख) डाइल्यूटेड (रु. में)

नुसार है :

कॉपोरेंट कार्यालयः ग्राम नवादा फतेहपुर, पो.ऑ. सिकंदरपुर बद्दा,

समाप्त वर्ष

1,165.21

1,191.83

924.71

886.78

224.03

224.03

180,17

157.68

114.61

उडएलोन विसीय परिणामों पर अतिरिक्त जानकारी निम

प्रतिभृति प्रीमियम खाता

ऋण इक्विटी अनुपात

वक्फ बोर्ड की हैसियत कम करने की तैयारी?

सरकार का दावा- इस बिल के जरिए बोर्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा

Manjar Chatured (आmendulas com मार्ड हिल्ली: नेक समस्य पूजार को करना मोर्ड संस्तेशन विश्व लोकस्त्रम में में कर मोर्ड स्त्री संस्त्री प्रकार को करना मोर्ड संस्त्री स्त्री स्त्री मार्ड हों। इसे लेकर लोकस्त्रम में के विकर्ण में के अध्याद करने को मीर्ज में चर्चा हुँ। इस स्त्री के स्त्री मार्ज में से आप मोर्ड में सार्व में सार्व में सार्व में सार्व में सार्व मार्च मार



लिए केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सेंटल वक्फ िएए केंद्र सरकार के अल्पसख्यक मामला के मंत्रालय की ओर से सेंद्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। यह वक्क बोर्डों के कामकाज के मानलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1995 में वक्फ ऐक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य/ पहार्त है। १००० मान प्रमान तो बढ़ें (AMMLB) ने कहा का समस्यत का का प्रमान तो बढ़ें (AMMLB) ने कहा कि क्य मीजूद वकर रेक्ट में कह तवा सालह देता है। वर्ष 1995 में वकर रेक्ट में मा क बाद तालह तहा है। वर्ष 1995 में वकर रेक्ट में मान के बाद तालह तहा है। वर्ष मान के बाद तालह तहा के स्वाप्त के साल के विकार विवाद का सबसे बढ़ा मोनूरी दी मार्ट वा के साल प्रकार को के बोद के फैसले के खिलाक को खिला का उन्हों के अपने के साल के खिला का उन्हों के के प्रमान के खिला का उन्हों के अपने के साल के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के साल के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के साल के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के साल के खिला के अपने के मान के खिला के अपने के साल के खिला के खिला के अपने के साल के अपने के साल के साल

हुआ करती थी। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कल 8.65.644 अनल

संशोधन बिल के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

किता पर होगा शक्ति अंदर की बात

अंदर की बात यह बिल मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला शकित परीक्षण होगा। एक ओर विपक्ष इसे स्थायी समिति के पास भेजने की अपनी मांग पर खड़ा दिखेगा, वहीं देखना होगा कि NDA सरकार में BJP देखना होगा कि NDA सरकार में BJP के में पूराबु प्रदार कर 1004-TDP के मीरत इस विल पर अलना क्या रख अपनत हैं। इस वोची में देख जो के मुंदर्स पर अलना क्या रख अपनत हैं। इस वोची के दश्यों के मुद्देश में स्थान में उपना बोट आध्य है। ऐसे में उनके सर्वाकारों की अन्देर की कर बचा देखें ने दिखा की अन्देर की कर बचा को हैं की के किया कर बचा में देखें की किया की प्रता प्रवासना के मी की कहा कि के किया हमा महिला क्या नहीं है कि यह अपने महिला क्या जा तो जाए। किया प्रेस्त कर बचा पर अपने की लिए उसे लिक्टममा में 3004-TDP की जलसरा पड़ेगी।

राज्यसभा की खाली 12 सीटों पर 3 सितंबर को होंगे चुनाव

अधियोध संस्वादवाता, नई दिल्ली स्वीनवाल और न्योंतरादित्य सिध्यव समेत कुछ सदस्यों के नेवार सारदर विश्विष्ट सुनाव आयोग ने युश्यव को कहा कि होने के बार उत्परमा भी 10 बार्ट खाली १७ उपस्पत्त सिध्यव होने हुए अस्ति स्वीनवाल अर्थ ने सिक्ष प्रमुख को लिए ने कहा कि उपस्पत्त सिध्यव के हिए ने विश्व कर ने हैं में भी तोनेवाल में श्रीवर के केशा कि उपस्पत्त से किए नीटिक्नेक्शन स्वीनवाल करने की सीविध्य के हिए नीटिक्नेक्शन स्वीनिश्च के सिल्य नीटिक्नेक्शन स्वीनिश्च के सिल्य नीटिक्नेक्शन स्वीनिश्च के सिल्य नीटिक्नेक्शन से सुद्धान ने नीटिक्न स्वीनिश्च के सिल्य के सिल्य के सिल्य के सिल्य कि सिल्य के सिल्य सिल्य के सिल्य क

श्रद्धालुओं के लिए ननकाना साहिब तक सेफ पैसेज हो : राघव चड्डा



(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)



वॉक-इन-इंटरव्यू

सुप्रीम या हाई कोर्ट नहीं, देश में संविधान सर्वोच्च : CJI

MP हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया

किटन मास्त्रा एक महत्त को अपना समान भौिति किया था। ASI ने आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि कह उन समारकों की संस्थाण कर रहा है। वर्कति ने कहा कि ASI प्राचीन समारक संस्थाण अधिनियम, 1904 के तहत घोषित इन संस्थानाओं की स्त्रा कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्क बोर्ड के आदेश को रहा किया जाता है।

UNO MINDA

स्टैंडअलोन

156.73

156.73

135.16

116.59

114.61

समाप्त वर्ष

8,983.3

730.32

730.32

585.83

538.01

114,82

31-03-2024

1,460.96

925.50

0.25

18.39

समाप्त तिमाही

2,451.55

158.96

122.96

113.92

114,83

2.13

1,477.66

766.22

0.24

18.39

16.14

30-06-2024 30-06-2023

1,540.1

3,923,79

1,200.84

0.32

18.39

10.13

के पास ज्य़ादा विकल्प नहीं

CUET रिजल्ट में देरी से छात्रों

'सेक्टर 10 ए, ऐरोली, नवी मुंबई में व्यापक भूमि के विकास

क लिए। निर्माण आर विकास एजसा (सा एड डाए) क चयन के लिए" आरएफक्यू सह आरएफमी। महायद नगर एवं जीवोगिक विकास निर्मा लिमिटेड ('प्राधिकरण') ई-निविद्य की प्रक्रिया के माध्यम से सेक्टर 10 ए ऐरोली, नवी मुंबई में व्यायक पृत्ति के बतास के लिए निर्माण और विकास एचेंसी (से एंड डीए) के चपन हेतु अनुपयों और प्रतिदिद्य व्यावसायिक संस्थाओं से अनिलाहन प्रस्ताव आर्मिटेत करता है। 1. कार्स का नाम: "सेक्टर 10 ए, ऐरोली, नवी मुंबई में व्यायक भूमि के विकास के लिए निर्माण और विकास एजेंसी (सी एंड डीए) के चयन के



बोली आमंत्रण सूचना

के लिए निर्माण और विकास एजेंसी (सी एंड डीए) के चयन

विकास के लिए निमाण और विकास एजरेसा (सा एड होए) के वयन के लिए" आएफक्स इस आएफपी 1, 21%, स्वेबार : 01/10/20/78/20 CGM (T&A)/2024-25, 3. निविद्य प्रसंस्करण शुल्क (अग्रतिदेश): रु. 70,800)- चीएसटी सहित बेली कार्यक्रम के साथ बोली दस्तावेज 10/08/2024 से वेबसइट www.mahatenders.gov.in पर उपलब्ध होण।

मुख्य महाप्रबंधक (टी एंड ए)

F. No. P.15025/60/2021-FR भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग . (खाद्य विनियम अनुभाग)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में अध्यक्ष के पद को भरने के लिए पुन: लिए पुन: विज्ञापन

इस विषय पर पहले रोजगार समाचार में प्रकाशित दिनांक 08.07.2023 के विज्ञापन सं. सीबीसी 17102/11/0021/2324 के विस्तार में, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फएसएसएआई, नई दिल्ली में अध्यक्ष के पर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एफएसएसएसएडाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायन निकाय है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.08.2024 होगी। दिनांक 08.07.2023 विज्ञापन सं.सीबीसी 17102/11/0021/2324 के ादगाक ७६.07.2023 विज्ञापन स.सावासा 17102/117002/12524 क अनुसार पहले ही प्राप्त आवेदनों को पद के लिए विचार किया जाएगा । आवेदन भेजने का प्रोफामां और अन्य विवरण www.mohfw.gov.in या dopt.gov.in या fssai.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(जी ए रघुवंशी) उप सच्चिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मं CBC 17102/11/0008/2425

(1) Reliance

रजिस्टर्ड कावांतरः ३से मंत्रिल, नेकर सैम्बर्स ४, २२२, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१ दूरदर्जी: +११-२२-३५५५ ५००० • केन्स: +११-२२-२२०४ २२६८ • ई-मेल: Investorrelations@ril.com CIN:L17110MH1973PLC019786

कंपनी के सदस्यों के लिए सूचना

सैंतालीसवीं वार्षिक आम बैठक (आईपीओ-पश्चात) और ई-वोटिंग पर सूचना

witchick with a down (Missel with the man and well with the man and well with the man and well well as a supposed a manifest that the man at well as a supposed a manifest that the manifest that the manifest and the manifest that the manifest and the manifest that the m

एजीएम की सूचना में संदर्शित रस्तानेज एजीएम की सूचना के प्रकान की तार्रीख से सदस्यों द्वारा निरिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपनब्ध हैं। ऐसे दस्तानेजों का निरीक्षण करने के इस्पृक्त प्रस्था ridsgm@ril.com पर उपने प्रोतियों नंबर/डीमी आईटी और कनाईट आईटी का उपनेख करते हुए ई-मैस मेन सकरे हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग:

TRUE_S=IRUS अभि उल्लाख कराया के .सीकिएं अपनी जरानी वारायों को इंग्लेश्विक माध्याची ("ई-नीविंग") द्वारा व्योप्त में चानित किय करने बाते प्रतास्त्री पर सावत्त्री के अधिकार का प्रतासे करने की सुविधा प्रतास कर ही है। बहुएस अपना बाते पर सावत्त्री की यह तर्राची कर पूर्व में में माध्या करते हैं ("किस्ट -द-नीवंग्ड") । करना में में «मीकिए होंगा पहारा करने किए प्रतासे कि कम मिलिक्ट करी वेश्वरा में हैं के स्मान्त कर के स्त्री कर की किए प्रतासे कि कम मिलक करी वेश्वरा में हैं के स्त्री कर में में माध्या के स्त्री के से में में सुवारा को मिलिक्ट की प्रतास का मिलक करने हैं, भीतिक काम में में में प्रतास की माध्या में माध्या की माध्या कर काम मिलक करने माध्या में माध्या मा

दरस्थ ई-वॉटिंग की शुरुआत : शनिवार, २४ अगस्त, २०२४ को भारतीय समयानुसार दोपहर १:०० बजे दूरस्थ ई-बोटिंग का अंत विपाल, २८ अगस्त, २०२४ को भारतीय समयानुसार शाम ५:०० बजे

पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और दूरस्थ ई-बोटिंग मॉड्यूल केफिनटेक द्वारा पूर्वोक्त अयधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। रजीएम में मान क्षेत्रे वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग द्वारा बोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रोनिक मतदान (''**इंस्टा पोल'')** कर सकेंगे। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी गुरुवार, २२ अगस्त, २०: डिगॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वत्वाधिकारियों के रजिस्टर है, रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान क

- अ प्रीविक कर से किए राक्षी कर प्रावक्त किए हैं। अ प्रीविक कर से किए राक्षी कर पहला, किए हैंने केपते में अरग हुं-तेज पा पंक्रिया/अरामन नहीं किए हैं, जन्मे अरुपेश किया जात है कि से विदेश पास और हालाविक पार्टी आप्रियालना (कांगी की बिकाइन swarz, come प्रावक्ता) के साथ कर आवश्यक सहायक हालाकी राक्षित केशिन्येक शिलांक हराईक दिन्दिक को सेतेनीय पार्टिक हैं, नहीं 3-3-2, राव्योक्डसी, अर्थिनका किरियाल, नगळन्युक, हैराका ५०० 22 में जान कर अरगा है-तिर सा। पंजीकृत/अरामन करें।
- डीमैटीरियलाइण्ड मोड में होयर रखने वाले सदस्य, ठिन्होंने अपने डिवॉणिटरी पार्टिसियें के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अध्यत- नहीं किया है, उनसे अनुतंध है कि वे ई-मेल पता डियॉणिटरी पार्टिसियेंट्स) में पंजीकृत/अध्यत- करें, जहां वे अपने डीमेंट

रखत हो -दे - वॉटिट में संबंधित कोई मी प्रश्न हो सदस्य के फिनटेक की वे https://www.fings.fintech.com के "साउनलोट संक्शन मे हॉम्यायन मेनू के माध्यम से प्रे प्रश्नाप्त केवान/ई--वॉटिय मूक्त मेनुकार देख सकते हैं। स्वरूपों से अनुदेश हैं कि यहिं ई-वॉटिंग में संद्ध कोई, प्रश्न/फिकायत हों तो जनके सन् दिन्द निमालिक्षित संक्ष्मिकाणों पर ध्यान हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होना:



... 30 जून, 2024 को समझ तिमझी के लिए पर्नोकत और स्टैडअलोन विताय परिणामों को समीक्षा लेकारपीक्षा समिति द्वारा की गई और 07 अगस्त, 2024 को आयोजिन अपने वैठक में निशंकक पहल हारा अनुमोदित की गई।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

निर्मल के. मिंडा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00014942

हमें फॉलो करें : 🚺 🛅 💟 🔼

